

# Chamak Holdings Limited

REGD. OFF: 55-B, RAMA ROAD, INDL. AREA, NEW DELHI - 110015  
E-mail: chamakholdings@gmail.com, Website: chamakholdings.com

**DATE: 12.08.2023**

<b>Metropolitan Stock Exchange of India Limited</b> 205(A), 2 <sup>nd</sup> Floor, Piramal Agastya Corporate Park, Kamani Junction, LBS Road, Kurla (West), Mumbai – 400070.  Symbol: CHAMAK Series: EQ	<b>BSE Limited</b> Phirozee Jeejeebhoy Towers  Dalal Street, 25th Floor  Mumbai – 400 001  Name of Scrip: Chamak Holdings Ltd Scrip Code: 539600
---	--

**Sub: Published extracts of Un-Audited Financial Result for the Quarter ended June 30<sup>th</sup>, 2023**

**Ref: SEBI (Listing Obligation & Disclosure Requirements) Regulations, 2015**

Dear Sir/Madam,

Please find the Enclosed herewith the certified true copies of the extracts of Audited Financial Results for the Quarter ended June 30<sup>th</sup>, 2023 as published Today i.e. 12<sup>th</sup> Aug, 2023 in "Hari Bhoomi" (Hindi) and "Financial Express" (English) pursuant to Regulation 47 of SEBI (Listing Obligation & Disclosure Requirements) Regulations, 2015.

This is for your Information and records.

Thanking You,  
Yours' Faithfully,  
For **Chamak Holdings Limited**

*Deepti*  


**Deepti Gupta**  
**Company Secretary & Compliance Officer**  
**Membership No. A 55551**

**Encl.: As above**



The reserve price will be INR 23,67,48,218/- (Rupees Twenty Three Lakh Sixty Seven Thousand Four Hundred Eighty Two and Eighteen Paise Only) and the Earnest Money Deposit (EMD) will be INR 2,36,74,82,22/- (Rupees Two Lacs Thirty Six Thousand Seven Hundred Forty Eight and Twenty Two Paise only). The last date of EMD deposit is 28-08-2023. The date for inspection of the said property is fixed on 25-08-2023 between 11:00 am to 04:00 pm.

**DESCRIPTION OF IMMOVABLE PROPERTY**

All That Piece And Parcel Of Flat Bearing Unit No. B-1908, Block B, Admeasuring 1290 Sq. Ft., 19th Floor, Oasis Venelia Heights, Plot No. HRA12A, Surajpur, Site-C, Housing Complex, Greater Noida, UP-201308

For detailed terms and conditions of the sale, please refer to the link provided in Aditya Birla Housing Finance Limited/Secured Creditor's website i.e. <https://homefinance.adityabirlacapital.com/properties-for-auction-under-sarfaesi-act> or <https://BestAuctionDeal.com>

Date: 12-08-2023

Place: NOIDA

Authorized Officer  
Aditya Birla Housing Finance Limited

**CHAMAK HOLDINGS LIMITED**

Regd. Office: 55-B, Rama Road Industrial Area, New Delhi - 110015,  
CIN: L5149DL1984PLC019684

Website: [www.chamakholdings.com](http://www.chamakholdings.com), Email: [chamakholdings@gmail.com](mailto:chamakholdings@gmail.com)

**STATEMENT OF UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED JUNE 30, 2023**

S. No.	Particulars	₹, Lakhs		
		Unaudited 3 months ended 30.06.2023	Unaudited Corresponding 3 months ended in the previous year 30.06.2022	Audited Previous Year ended 31.03.2023
1	Total income from operations	2.24	1,068.37	5,220.50
2	Net profit for the year (before tax and exceptional items)	-19.45	4.65	67.38
3	Net profit for the year before tax (after exceptional items)	-19.45	4.65	67.38
4	Net profit for the year after tax and exceptional items	-19.01	9.32	57.25
5	Total comprehensive income (comprising profit/loss for the year after tax and other comprehensive (after tax))	-3.14	-38.12	-6.25
6	Paid up equity share capital (Face value of Re. 10/- each)	324.50	324.50	324.50
7	Earnings per share (face value of Rupee 10/- each) (not annualised)			
	- Basic and Diluted earnings per share (in Rs.)	-0.10	-1.17	-0.19

**Notes:**

- The above unaudited financial results were reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at its meeting held on 11/08/2023
- The Statutory Auditors of the Company have carried out the Limited review of the above unaudited financial results pursuant to Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligation and Disclosures Requirements) Regulations, 2015, and have issued their Limited Review Report on the same.
- In line with the provisions of Ind AS-108 'Operating Segments' as notified under the Companies (Ind AS) Rules, 2015, and as provided in section 133 of the Companies Act, 2013, the operations of the Company fall under the head "Trading of Plastic, Steel Circars, etc.", which is considered to be the only reportable segment by the management.
- The Managing Director and Chief Financial Officer has certified that the financial results for the quarter ended June 30, 2023, do not contain any false or misleading statement or figures and do not omit any material fact which may make the statements or figures contained therein misleading.
- The financial results of the Company for the quarter ended on June 30, 2023, are available at the Company's website, [www.chamakholdings.com](http://www.chamakholdings.com) and Bombay Stock Exchange website, [www.bseindia.com](http://www.bseindia.com) and Metropolitan Stock Exchange website <http://www.mseil.in/>
- The figures for the previous period have been grouped / rearranged, wherever necessary, to confirm to the current period's classification.

By Order of the Board  
Chamak Holdings Limited  
Sd/-  
Anubhav Kalthuria  
Managing Director  
DIN: 01196916

Date: 11/08/2023  
Place: New Delhi.

6	Paid-up Equity Share Capital (Face value of Rs. 10 each)	698.58	698.58	698.58	698.58
7	Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Audited Balance Sheet of the previous year				12,446.11
8	Earnings Per Share (of Rs. 10/- each) (for continuing and discontinued operations)				
	1. Basic:	0.09	0.09	(0.06)	0.83
	2. Diluted:	0.09	0.09	(0.08)	0.83

**Notes:**

- The above is an extract of the detailed format of quarterly un-audited financial results filed with the Stock Exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, as amended from time to time. The full format of the quarterly un-audited financial results are available on the Stock Exchange website ([www.bseindia.com](http://www.bseindia.com)) and on the Company's website ([www.suryaindiaidtd.com](http://www.suryaindiaidtd.com)).
- The above financial results were reviewed and recommended by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at its meeting held on 11.08.2023. The limited review have been carried out by the Statutory Auditor of the Company.
- Total income from operations (net) does not include other income.

Place: New Delhi  
Date: 11.08.2023

For Surya India Limits  
Sd/-  
Preeti Agarwal  
Managing Director  
DIN: 000114

**SWADESHI POLYTEX LIMITED**

CIN: L25209UP1970PLC003320

Regd. Office: Kavi Nagar, Industrial Area, Ghaziabad-201002, Uttar Pradesh.  
Ph. No. 0120-2701472, Website: [www.splinda.co.in](http://www.splinda.co.in)

**Statement of Un-Audited Financial Results for the Quarter ended 30<sup>th</sup> June, 2023**

Sl. No.	Particulars	Quarter Ended			
		30.06.2023 (UnAudited)	31.03.2023 (Audited)	30.06.2022 (Audited)	31.03.2023 (Audited)
1	Total Income	574.93	1,722.91	1,404.28	4,680.28
2	Net-Profit / (Loss) for the period (before tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	509.77	1,586.86	1,322.71	4,323.28
3	Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	509.77	1,586.86	1,322.71	4,323.28
4	Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	391.35	1,273.93	1,062.06	3,487.28
5	Total Comprehensive Income for the period (Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and other comprehensive income (after tax))	391.35	1,271.45	1,062.06	3,484.28
6	Equity Share Capital	390.00	390.00	390.00	390.00
7	Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Audited Balance Sheet of previous year	0.00	0.00	0.00	0.00
8	Earnings per Equity Share (of Rupee 1/- each) (for continuing and discontinued operations)-				
	Basic:	1.00	3.26	2.72	8.9
	Diluted:	1.00	3.26	2.72	8.9

**Note:**

- The above results were reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at their respective meetings held on 11<sup>th</sup> August, 2023.
- In Line with the provisions of Ind 108 'Operating Segments' as notified under Companies (IndAS) Rules 2015 and as provided in Section 133 of the Companies Act, 2013, the operations of the company fall under the head "Real Estate", which is considered to be the only reportable segment by the Management.

Place: Ghaziabad  
Date: 11.08.2023

By order of the Board  
Swadeshi Polytex Ltd  
Anuradha Shi  
Company Secretary

